

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012—ज्येष्ठ 4, शक 1934

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. 1893-6-प्रवाचक-1-2012.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 के अन्तर्गत नगर परिषद् पचोर के उपाध्यक्ष श्रीमति संगीता पति श्री योगेश करोड़िया, निवासी पचोर, पार्श्वद वार्ड क्रमांक 15 द्वारा निजी कारणों से प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 16 जनवरी 2012 स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है. अतः, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश नगर परिषद्, पचोर में उपाध्यक्ष का पद दिनांक 14 फरवरी 2012 से रिक्त घोषित करता हूँ.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.